

परिचायक टिप्पणी

प्राप्ति बजट का स्वरूप बजट 2011-12 से बदल दिया गया है। इस दस्तावेज में आरम्भ में ही प्राप्तियों का सार दिया गया है जिसके बाद कर-राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और पूँजी प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। इनके बाद अनुबंध हैं। बेहतर और पारदर्शी प्रस्तुतिकरण के लिए इन अनुबंधों में से कुछ पहली बार शुरू किए गए हैं।

अनुबंध:

अनुबंध 1 में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दी गई हैं। कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 2 में दिया गया है। अनुबंध 3 में व्यय की प्रवृत्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं जबकि अनुबंध 4 में मिलान के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 5 ऋण की स्थिति से संबंधित है और इसमें अनुबंध 5 (i) देनदारियों का विवरण, अनुबंध 5 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण, अनुबंध 5 (iii) गारंटियों का विवरण और अनुबंध 5 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर उपभाग हैं।

अनुबंध 6 केन्द्र सरकार के चालू रूपया ऋणों का ब्यौरा है, जबकि अनुबंध 6क और 6ख में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष सरकारी प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। वर्ष 2011-12 से, अनुबंधों का नया सैट नामशः अनुबंध 6ग से अनुबंध 6झ आरंभ किया गया है। ये अनुबंध विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जारी सक्षिडी और विशेष बांडों के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 7क में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग दर्शाए गए हैं जबकि अनुबंध 7ख राष्ट्रीय लघु बचत निधि का एक वित्तीय विवरण है। अनुबंध 8 में वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी का ब्यौरा है।

अनुबंध 9 में विदेशी सहायता संबंधी विवरण है जबकि अनुबंध 10 और 10क क्रमशः ब.अ. 2011-12 और सं.अ. 2010-11 में संघीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों के राज्यवार वितरण के विवरण हैं। अनुबंध 11 में जुटाए गए लैकिन वसूल न किए गए कर-राजस्व का विवरण है और अनुबंध 12 कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि का विवरण है। अनुबंध 13 में 2011-12 के दौरान उन्मोचन के लिए बकाया बाजार ऋणों का ब्यौरा है जबकि अनुबंध 14 में रेलवे प्रारक्षित निधियों का ब्यौरा दिया गया है। अनुबंध 15 में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व के विवरण हैं।